



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062023-246508  
CG-DL-E-14062023-246508

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945

No. 379]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2023

**फा.सं. 18-38/7737-आईएनसी.:-**समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, **मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धमतरी रोड, लालपुर, जिला रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)** छत्तीसगढ़ राज्य सरकार तथा छत्तीसगढ़ उपचर्या परिषद् द्वारा **जीएनएम और पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, कमरा संख्या एस4-18, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर-492002, छत्तीसगढ़ को संबोधित नोटिस संख्या 18-38/7737-आईएनसी दिनांक 22.11.2022 को जारी किया गया था। दिनांक 22.11.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति **मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धमतरी रोड, लालपुर, जिला रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)** को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, **मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, छत्तीसगढ़** के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी **मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग** ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 21.01.2022 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान जीएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम चलाने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 23.02.2023 से **मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धमतरी रोड, लालपुर, जिला रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)** से जीएनएम और पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल **छत्तीसगढ़ राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./162/2023-24]

## INDIAN NURSING COUNCIL

### WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 9th June, 2023

**F.No. 18-38/7737-INC.**—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Modern Medical Institute College of Nursing** situated at **Dhamtari Road, Lalpur, Distt. Raipur – 492001, Chhattisgarh** was recognized by State Government of Chhattisgarh and Chhattisgarh Nursing Council to conduct **GNM & Post Basic B.Sc(N)** Course.

Whereas, a notice no. 18-38/7737-INC dated 22/11/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary, Department of Health & Family Welfare, Government of Chhattisgarh, R.N. S4-18, Mahanadi Bhawan Mantralaya, New Raipur – 492002, Chhattisgarh was issued. Copy of the notice dated 22/11/2022 was also enclosed **Modern Medical Institute College of Nursing** situated at **Dhamtari Road, Lalpur, Distt. Raipur – 492001, Chhattisgarh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Modern Medical Institute College of Nursing**. Even the institution **Modern Medical Institute College of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 21/01/2022 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run **GNM & Post Basic B.Sc(N)** Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 23/02/2023 any person holding a recognized qualification of **GNM & Post Basic B.Sc(N)** from **Modern Medical Institute College of Nursing** situated at **Dhamtari Road, Lalpur, Distt. Raipur – 492001, Chhattisgarh** shall be entitled to be registered only in the State of **Chhattisgarh** subject to orders of state government of Chhattisgarh.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./162/2023-24]